



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन 1931 (श०)
(सं० पटना 168) पटना, मंगलवार, 9 मार्च 2010

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

27 नवम्बर 2009

सं० ई०एल०1-001/2008 (खंड R.O.-A.C.)-68—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं० 434/बिहार-वि.स. /2009 (1), दिनांक 15 अक्टूबर 2009 को सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,
सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
—सह-सरकार के अवर सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001, दिनांक 15 अक्टूबर, 2009/23 अश्विन, 1931 (शक)

सं० 434/बिहार-वि.स./2009(1) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-21 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार के अधिकारी के ऐसे अधिकारी के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित तथा दिनांक 17 अगस्त, 2007 को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश सं० 54 द्वारा यथा निर्धारित तथा उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथाविनिर्दिष्ट बिहार राज्य के विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है:-

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम।	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
1-वाल्मीकिनगर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व० नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेतिया
2-रामनगर(अ०जा०)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बगहा

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम।	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
3-नरकटियागंज	अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज
4-बगहा	अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा
5-लौरिया	जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
6-नौतन	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेतिया
7-चनपटिया	उप-विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
8-बेतिया	अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया
9-सिकटा	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेतिया
10-रक्सौल	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल
11-सुगौली	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी
12-नरकटिया	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रक्सौल
13-हरसिद्धि (अ0जा0)	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मोतिहारी
14-गोविन्दगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज
15-केसरिया	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मोतिहारी
16-कल्याणपुर	जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी
17-पिपरा	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया
18-मधुबन	अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल
19-मोतिहारी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर मोतिहारी
20-चिरैया	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, मोतिहारी
21-ढाका	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना
22-शिवहर	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर
23-रीगा	उप-समाहर्ता भूमि सुधार, सीतामढ़ी सदर
24-बथनाहा (अ0जा0)	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीतामढ़ी
25-परिहार	उप-विकास आयुक्त, सीतामढ़ी
26-सुरसंड	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी
27-बाजपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी
28-सीतामढ़ी	अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर
29-रुन्नीसैदपुर	अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी
30-बेलसंड	अनुमंडल पदाधिकारी, बेलसंड
31-हरलाखी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी
32-बेनीपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी
33-खजौली	अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर
34-बाबूबरही	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधुबनी
35-बिस्फी	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, मधुबनी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम।	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
36-मधुबनी	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी
37-राजनगर (अ0जा0)	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी
38-झंझारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर
39-फुलपरास	अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास
40-लौकहा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, फुलपरास
41-निर्मली	अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली
42-पिपरा	अपर समाहर्ता, सुपौल
43-सुपौल	अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल
44-त्रिवेणीगंज (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज
45-छातापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर
46-नरपतगंज	उप-विकास आयुक्त, अररिया
47-रानीगंज (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, अररिया
48-फारबिसगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज
49-अररिया	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया
50-जोकिहाट	जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया
51-सिकटी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया
52-बहादुरगंज	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, किशनगंज
53-ठाकुरगंज	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज
54-किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज
55-कोचाधामन	अपर समाहर्ता, किशनगंज
56-अमौर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णिया
57-बायसी	अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी
58-कसबा	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया
59-बनमनखी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी
60-रुपौली	अपर समाहर्ता, पूर्णिया
61-धमदाहा	अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा
62-पूर्णियां	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णियां
63-कटिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार
64-कदवा	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, कटिहार
65-बलरामपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई
66-प्राणपुर	उप विकास आयुक्त, कटिहार
67-मनिहारी (अ0ज0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम।	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
68-बरारी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, कटिहार
69-कोढ़ा (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, कटिहार
70-आलमनगर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, उदाकिशुनगंज
71-बिहारीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
72-सिंहेश्वर (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, मधेपुरा
73-मधेपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
74-सोनबरसा (अ0जा0)	जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा
75-सहरसा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा
76-सिमरी बख्तियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर
77-महिषी	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहरसा
78-कुशेश्वरस्थान (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल
79-गौड़ाबौराम	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बिरौल
80-बेनीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर
81-अलीनगर	उप-विकास आयुक्त, दरभंगा
82-दरभंगा ग्रामीण	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा
83-दरभंगा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा
84-हायाघाट	अपर समाहर्ता, दरभंगा
85-बहादुरपुर	अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, दरभंगा
86-केवटी	अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, दरभंगा
87-जाले	नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा
88-गायधाट	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
89-औराई	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
90-मीनापुर	अपर नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम
91-बोचहॉ (अ0जा0)	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
92-सकरा (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर
93-कुढ़नी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
94-मुजफ्फरपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर
95-काँटी	नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर
96-बरुराज	उप-विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर
97-पारु	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
98-साहेबगंज	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
99-बैकुण्ठपुर	उप-विकास आयुक्त, गोपालगंज
100-बरौली	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम।	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
101-गोपालगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज
102-कुचायकोट	अपर समाहर्ता, गोपालगंज
103-भोरे (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, हथुआ
104-हथुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ
105-सिवान	अपर समाहर्ता, सिवान
106-जीरादेई	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सिवान
107-दरौली (अ0जा0)	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान
108-रधुनाथपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर
109-दरौंदा	जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान
110-बड़हरिया	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान
111-गोरेयाकोठी	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिवान
112-महराजगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज
113-एकमा	जिला पंचायत राज पदाधिकारी (बि0प्र0से0), सारण
114-मांझी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर छपरा
115-बनियापुर	उप-विकास आयुक्त, सारण
116-तरैया	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, मढ़ौरा
117-मढ़ौरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा
118-छपरा	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा
119-गरखा (अ0जा0)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण
120-अमनौर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण
121-परसा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सोनपुर
122-सोनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर
123-हाजीपुर	जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली
124-लालगंज	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, हाजीपुर
125-वैशाली	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
126-महुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ
127-राजापाकर (अ0जा0)	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली
128-राधोपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर
129-महनार	अनुमंडल पदाधिकारी, महनार
130-पातेपुर (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, महुआ
131-कल्याणपुर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर
132-वारिसनगर	जिला पंचायती राज पदाधिकारी (बि0प्र0से0), समस्तीपुर
133-समस्तीपुर	उप-विकास आयुक्त, समस्तीपुर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम।	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
134-उजियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय
135-मोरवा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, समस्तीपुर
136-सरायरंजन	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर
137-मोहिउद्दीननगर	अनुमंडल पदाधिकारी, पटौरी
138-विभूतिपुर	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर
139-रोसड़ा (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा
140-हसनपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रोसड़ा
141-चेरिया बरियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल
142-बछवाड़ा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, तेघड़ा
143-तेघड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा
144-मटिहानी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेगूसराय
145-साहेबपुर कमाल	अनुमंडल पदाधिकारी, बलिया
146-बेगूसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय
147-बखरी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी
148-अलौली (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया
149-खगड़िया	अपर समाहर्ता, खगड़िया
150-बेलदौर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खगड़िया
151-परबत्ता	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी
152-बिहपुर	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर
153-गोपालपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया
154-पीरपैती (अ0जा0)	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर
155-कहलगांव	अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव
156-भागलपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर
157-सुल्तानगंज	अपर समाहर्ता, भागलपुर
158-नाथनगर	अपर समाहर्ता, (भू-हदबन्दी), भागलपुर
159-अमरपुर	अपर समाहर्ता, बांका
160-धौरैया (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बांका
161-बांका	अनुमंडल पदाधिकारी, बांका
162-कटोरिया (अ0ज0जा0)	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका
163-बेलहर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका
164-तारापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर
165-मुंगेर	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम।	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
166-जमालपुर	अपर समाहर्ता, मुंगेर
167-सूर्यगढ़ा	उप-समाहर्ता भूमि सुधार, लखीसराय
168-लखीसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय
169-शेखपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा
170-बरबीधा	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा
171-अरथावाँ	अपर समाहर्ता, नालन्दा
172-बिहारशरीफ	अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ
173-राजगीर (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर
174-इस्लामपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, हिलसा
175-हिलसा	अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा
176-नालन्दा	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालन्दा
177-हरनौत	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालन्दा
178-मोकामा	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़
179-बाढ़	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बाढ़
180-बख्तियारपुर	अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना
181-दीघा	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
182-बाँकीपुर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, पटना सदर
183-कुम्हारार	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना
184-पटना साहिब	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी
185-फतुहा	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना
186-दानापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर
187-मनेर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, दानापुर
188-फुलवारी (अ0जा0)	अपर जिला दंडाधिकारी आपदा प्रबंधन, पटना
189-मसौढ़ी (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी
190-पालीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज
191-बिक्रम	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना
192-संदेश	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर आरा
193-बड़हरा	प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, आरा
194-आरा	नगर आयुक्त, आरा नगर निगम
195-अगिआँव (अ0जा0)	उप-निदेशक चकबन्दी, भोजपुर, आरा
196-तरारी	अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो
197-जगदीशपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर
198-शाहपुर	अपर समाहर्ता (नकस्ल), भोजपुर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम।	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
199-ब्रह्मपुर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर
200-बक्सर	अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर
201-डुमराँव	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमराँव
202-राजपुर (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, बक्सर
203-रामगढ़	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भमूआ)
204-मोहनिया (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनिया
205-भमूआ	अनुमंडल पदाधिकारी, भमूआ
206-चैनपुर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर (भमूआ)
207-चेनारी (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, रोहतास
208-सासाराम	अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम
209-करगहर	उप-समाहर्ता भूमि सुधार, सासाराम
210-दिनारा	उप-समाहर्ता भूमि सुधार, बिक्रमगंज
211-नोखा	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास
212-डिहरी	अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी
213-काराकाट	अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज
214-अरवल	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल
215-कुर्या	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, अरवल
216-जहानाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
217-घोसी	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, जहानाबाद
218-मखदुमपुर (अ0जा0)	अपर समाहर्ता (नक्सल), जहानाबाद
219-गोह	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर
220-ओबरा	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, दाउदनगर
221-नवीनगर	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, औरंगाबाद
222-कुटुम्बा (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, औरंगाबाद
223-औरंगाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद
224-रफीगंज	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, औरंगाबाद
225-गुरुआ	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया
226-शेरघाटी	अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी, गया
227-इमामगंज (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, भू-हदबन्दी, गया
228-बाराचट्टी (अ0जा0)	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, शेरघाटी, गया
229-बोध गया (अ0जा0)	अपर समाहर्ता, गया
230-गया टाउन	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया
231-टिकारी	अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी, गया

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम।	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
232-बेलागंज	अपर समाहर्ता नक्सल, गया
233-अतरी	अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी, गया
234-वजीरगंज	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर गया
235-रजौली (अ0जा0)	अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली
236-हिसुआ	अपर समाहर्ता, नवादा
237-नवादा	अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा
238-गोबिन्दपुर	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नवादा
239-वारसलीगंज	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा
240-सिकन्दरा (अ0जा0)	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई
241-जमुई	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
242-झाझा	उप विकास आयुक्त, जमुई
243-चकाई	भूमि सुधार उप-समाहर्ता, जमुई

आदेश से,
आर के0 श्रीवास्तव,
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001 dated : 15th October, 2009 /
23 Asvina, 1931 (Saka)*

No. 434/BR-LA/2009 (1):—In pursuance of the provisions of section 12 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby designates, the officer of the Government specified in column 2 of the Table below, as the Returning Officer of the Assembly Constituency in the State of Bihar, as specified in the column (1) of the said table against such officer of the state Government as determined by the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order No. 54, published in the Official Gazette on 17th August, 2007 and as specified in column 1 of the said Table against such Officer :—

TABLE

No. and Name of Assembly Constituencies	Returning Officer
1	2
1-Valmiki Nagar	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Bettiah
2-Ramnagar (SC)	Land Reform Dy. Collector, Bagaha
3-Narkatiaganj	Sub Divisional Officer, Narkatiaganj
4-Bagaha	Sub Divisional Officer, Bagaha
5-Lauriya	District Transport Officer, West Champarn, Bettiah
6-Nautan	Land Reform Dy. Collector, Bettiah
7-Chanpatia	District Development Commissioner, W. Champaran, Bettiah
8-Bettiah	Sub Divisional Officer, Bettiah
9-Sikta	District Supply Officer, West Champaran, Bettiah
10-Raxaul	Sub Divisional Officer, Raxaul
11-Sugauli	Sub Divisional Officer, Sadar Motihari
12-Narkatia	Dy. Collector Land Reform, Raxaul
13-Harsidhi (SC)	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Motihari
14-Govindganj	Sub Divisional Officer, Areraj
15-Kesaria	District Supply Officer, Motihari
16-Kalyanpur	District Transport Officer, Motihari
17-Pipra	Sub Divisional Officer, Chakiya
18-Madhuban	Sub Divisional Officer, Pakridayal
19-Motihari	Dy. Collector Land Reform, Sadar Motihari
20-Chiraia	Additional Collector, Land Ceiling, Motihari
21-Dhaka	Sub Divisional Officer, Sikarahana
22-Sheohar	Sub Divisional Officer, Sheohar
23-Riga	Dy. Collector Land Reform, Sitamarhi Sadar
24-Bathnaha (SC)	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Sitamarhi
25-Parihar	Dy. Development Commissioner, Sitamarhi
26-Sursand	District Panchayat Raj Officer, Sitamarhi
27-Bajpatti	Sub Divisional Officer, Pupri
28-Sitamarhi	Sub Divisional Officer, Sitamarhi Sadar
29-Runnisaipur	Additional Collector, Sitamarhi
30-Belsand	Sub Divisional Officer, Belsand

No. and Name of Assembly Constituencies	Returning Officer
1	2
31-Harlakhi	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Madhubani
32-Benipatti	Sub Divisional Officer, Benipatti
33-Khajauli	Sub Divisional Officer, Jainagar
34-Babubarhi	District Panchayat Raj Officer, Madhubani
35-Bisfi	Additional Collector, Land Ceiling, Madhubani
36-Madhubani	Sub Divisional Officer, Sadar, Madhubani
37-Rajnagar(SC)	District Transport Officer, Madhubani
38-Jhanjharpur	Sub Divisional Officer, Jhanjharpur
39-Phulparas	Sub Divisional Officer, Phulparas
40-Laukaha	Deputy Collector Land Reform, Phulparas
41-Nirmali	Sub Divisional Officer, Nirmali
42-Pipra	Additional Collector, Supaul
43-Supaul	Sub Divisional Officer, Supaul
44-Triveniganj (SC)	Sub Divisional Officer, Triveniganj
45-Chhatapur	Sub Divisional Officer, Birpur
46-Narpatganj	Deputy Development Commissioner, Araria
47-Raniganj (SC)	Additional Collector, Araria
48-Forbesganj	Sub Divisional Officer, Forbesganj
49-Araria	Sub Divisional Officer, Araria
50-Jokihat	District Welfare Officer, Araria
51-Sikti	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Araria
52-Bahadurganj	Deputy Collector Land reform, Kishanganj
53-Thakurganj	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Kishanganj
54-Kishanganj	Sub Divisional Officer, Kishanganj
55-Kochadhaman	Additional Collector, Kishanganj
56-Amour	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Purnia
57-Baisi	Sub Divisional Officer, Baisi
58-Kasba	Dy. Development Commissioner, Purnia
59-Banmankhi (SC)	Sub Divisional Officer, Banmankhi
60-Rupauli	Additional Collector, Purnia
61-Dhmdaha	Sub Divisional Officer, Dhamdaha
62-Purnia	Sub Divisional Officer, Sadar Purnia
63-Katihar	Sub Divisional Officer, Katihar

No. and Name of Assembly Constituencies	Returning Officer
1	2
64-Kadwa	Additional Collector, Land Ceiling, Katihar
65-Balrampur	Sub Divisional Officer, Barsoi
66-Pranpur	Dy. Development Commissioner, Katihar
67-Manihari (ST)	Sub Divisional Officer, Manihari
68-Barari	Deputy Collector Land Reform, Katihar
69-Korha (SC)	Additional Collector, Katihar
70-Alamnagar	Deputy Collector Land Reform, Udakishunganj
71-Bihariganj	Sub Divisional Officer, Udakishunganj
72-Singeshwar (SC)	Deputy Collector Land Reform, Madhepura
73-Madhepura	Sub Divisional Officer, Madhepura
74-Sonbarsa (SC)	District Welfare Officer, Saharsa
75-Saharsa	Sub Divisional Officer, Sadar Saharsa
76-Simri Bakhtiyarpur	Sub Divisional Officer, Simri Bakhtiyarpur
77-Mahishi	District Panchayat Raj Officer, Saharsa
78-Kusheshwar Asthan (SC)	Sub Divisional Officer, Biraul
79-Gaura Bauram	Deputy Collector Land Reforms, Biraul
80-Benipur	Sub Divisional Officer, Benipur
81-Alinagar	Deputy Development Commissioner, Darbhanga
82-Darbhanga Rural	District Land Acquisition Officer, Darbhanga
83-Darbhanga	Sub Divisional Officer, Sadar Darbhanga
84-Hayaghat	Additional Collector, Darbhanga
85-Bahadurpur	Additional Collector Disaster Management, Darbhanga
86-Keoti	Additional Collector, Land Ceiling, Darbhanga
87-Jale	Municipal Commissioner, Darbhanga Nagar Nigam, Darbhanga
88-Gaighat	District Supply Officer, Muzaffarpur
89-Aurai	District Panchayat Raj Officer, Muzaffarpur
90-Minapur	Additional Municipal Commissioner, Muzaffarpur Nagar Nigam
91-Bochaha (SC)	District Transport Officer, Muzaffarpur
92-Sakra (SC)	Deputy Collector Land reform (East), Muzaffarpur
93-Kurhani	Deputy Collector Land reform (West), Muzaffarpur
94-Muzaffarpur	Sub Divisional Officer (East), Muzaffarpur
95-Kanti	Municipal Commissioner, Muzaffarpur Nagar Nigam, Muzaffarpur
96-Baruraj	Deputy Development Commissioner, Muzaffarpur
97-Paroo	Sub Divisional Officer (West), Muzaffarpur
98-Sahebganj	District Land Acquisition Officer, Muzaffarpur
99-Baikunthpur	Deputy Development Commissioner, Gopalganj

No. and Name of Assembly Constituencies	Returning Officer
1	2
100-Barauli	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Gopalganj
101-Goplanganj	Sub Divisional Officer, Goplanganj
102-Kuchaikote	Additional Collector, Gopalganj
103-Bhorey (SC)	Deputy Collector Land Reform, Hathua
104-Hathua	Sub Divisional Officer, Hathua
105-Siwan	Additional Collector, Siwan
106-Ziradei	Deputy Collector Land Reform, Siwan
107-Darauli (SC)	District Panchayat Raj Officer, Siwan
108-Raghunathpur	Sub Divisional Officer, Siwan Sadar
109-Daraundha	District Transport Officer, Siwan
110-Barharia	District Land Acquisition Officer, Siwan
111-Goriakothi	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Siwan
112-Maharajganj	Sub Divisional Officer, Maharajganj
113-Ekma	District Panchayat Raj Officer (B.A.S.), Saran
114-Manjhi	Deputy Collector Land Reform, Sadar Chapra
115-Baniapur	Deputy Development Commissioner, Saran
116-Taraiya	Deputy Collector Land Reform, Marhaurah
117-Marhaura	Sub Divisional Officer, Marhaurah
118-Chapra	Sub Divisional Officer, Sadar Chapra
119-Garkha (SC)	District Land Acquisition Officer, Saran
120-Amnour	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Saran
121-Parsa	Deputy Collector Land Reform, Sonapur
122-Sonapur	Sub Divisional Officer, Sonapur
123-Hajipur	District Welfare Officer, Vaishali
124-Lalganj	Deputy Collector Land Reforms, Hajipur
125-Vaishali	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Vaishali
126-Mahua	Sub Divisional Officer, Mahua
127-Raja Pakar (SC)	District Panchayat Raj Officer, Vaishali
128-Raghopur	Sub Divisional Officer, Hajipur
129-Mahnar	Sub Divisional Officer, Mahnar
130-Patepur (SC)	Deputy Collector Land Reform, Mahua
131-Kalyanpur (SC)	Sub Divisional Officer, Samastipur
132-Warisanagar	District Panchayat Raj Officer (B.A.S.), Samastipur

No. and Name of Assembly Constituencies	Returning Officer
1	2
133-Samastipur	Deputy Development Commissioner, Samastipur
134-Ujiyarpur	Sub Divisional Officer, Dalsingsarai
135-Morwa	Deputy Collector Land Reform, Samastipur
136-Sarairanjan	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Samastipur
137-Mohiuddinnagar	Sub Divisional Officer, Patori
138-Bibhutipur	District Supply Officer, Samastipur
139-Rosera (SC)	Sub Divisional Officer, Rosera
140-Hasanpur	Deputy Collector Land Reform, Rosera
141-Chria Bariarpur	Sub Divisional Officer, Manjhauli
142-Bachhwara	Deputy Collector Land Reform, Teghra
143-Teghra	Sub Divisional Officer, Teghra
144-Matihani	Deputy Collector Land Reform, Begusarai
145-Sahebpur Kamal	Sub Divisional Officer, Balia
146-Begusarai	Sub Divisional Officer, Begusarai
147-Bakhri (SC)	Sub Divisional Officer, Bakhri
148-Alauli (SC)	Sub Divisional Officer, Khagaria
149-Khagaria	Additional Collector, Khagaria
150-Belduar	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Khagaria
151-Parbatta	Sub Divisional Officer, Gogri
152-Bihpur	District Supply Officer, Bhagalpur
153-Gopalpur	Sub Divisional Officer, Naugachia
154-Pirpanti (SC)	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Bhagalpur
155-Kahalgaon	Sub Divisional Officer, Kahalgaon
156-Bhagalpur	Sub Divisional Officer, Sadar Bhagalpur
157-Sultanganj	Additional Collector, Bhagalpur
158-Nathnagar	Additional Collector, Land Ceiling, Bhagalpur
159-Amarpur	Additional Collector, Banka
160-Dhauraiya (SC)	Deputy Collector Land Reform, Banka
161-Banka	Sub Divisional Officer, Banka
162-Katoria (ST)	District Panchayat Raj Officer, Banka
163-Belhar	District Land Acquisition Officer, Banka
164-Tarapur	Sub Divisional Officer, Tarapur
165-Munger	Sub Divisional Officer, Sadar, Munger
166-Jamalpur	Additional Collector, Munger
167-Suryagarha	Deputy Collector Land Reform, Lakhisarai

No. and Name of Assembly Constituencies	Returning Officer
1	2
168-Lakhisarai	Sub Divisional Officer, Lakhisarai
169-Sheikhpura	Sub Divisional Officer, Sheikhpura
170-Barbigha	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Sheikhpura
171-Asthawan	Additional Collector, Nalanda
172-Biharsharif	Sub Divisional Officer, Biharsharif
173-Rajgir (SC)	Sub Divisional Officer, Rajgir
174-Islampur	Deputy Collector, Land Reforms, Hilsa
175-Hilsa	Sub Divisional Officer, Hilsa
176-Nalanda	District Panchayati Raj Officer, Nalanda
177-Harnaut	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Nalanda
178-Mokama	Sub Divisional Officer, Barh
179-Barh	Deputy Collector Land Reforms, Barh
180-Bakhtiarpur	Additional District Magistrate Supply, Patna
181-Digha	Sub Divisional Officer, Patan Sadar
182-Bankipur	Deputy Collector Land Reforms, Patna Sadar
183-Kumhrar	Special Rationing Officer, Patna
184-Patna Sahib	Sub Divisional Officer, Patna City
185-Fatuha	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Patna.
186-Danapur	Sub Divisional Officer, Danapur
187-Maner	Deputy Collector Land Reform, Danapur
188-Phulwari (SC)	Additional Collector, District Management, Patna
189-Masaurhi (SC)	Sub Divisional Officer, Masaurhi
190-Paliganj	Sub Divisional Officer, Paliganj
191-Bikram	District Panchayat Raj Officer, Patna,
192-Sandesh	Sub Divisional Officer, Sadar Arrah
193-Barhara	Incharge Officer Settlement Office, Arrah
194-Arrah	Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Arrah
195-Agiaon (SC)	Deputy Director, Consolidation, Bhojpur, Arrah
196-Tarari	Sub Divisional Officer, Piro
197-Jagdishpur	Sub Divisional Officer, Jagdishpur
198-Shahpur	Additional Collector (Naxal), Bhojpur
199-Brahampur	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Buxar
200-Buxar	Sub Divisional Officer, Buxar

No. and Name of Assembly Constituencies	Returning Officer
1	2
201-Dumraon	Sub Divisional Officer, Dumroan
202-Rajpur (SC)	Additional Collector, Buxar
203-Ramgarh	District Transport Officer, Kaimur (Bhabhua)
204-Mohania (SC)	Sub Divisional Officer, Mohania
205-Bhabhua	Sub Divisional Officer, Bhabhua
206-Chainpur	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Kaimur (Bhabhua)
207-Chenari (SC)	Additional Collector, Rohtas
208-Sasaram	Sub Divisional Officer, Sasaram
209-Kargahar	Deputy Collector Land Reform, Sasaram
210-Dinara	Deputy Collector Land Reform, Bikramganj
211-Nokha	District Supply Officer, Rohtas
212-Dehri	Sub Divisional Officer, Dehri
213-Karakat	Sub Divisional Officer, Bikramganj
214-Arwal	Sub Divisional Officer, Arwal
215-Kurtha	Deputy Collector Land Reform, Arwal
216-Jehanabad	Sub Divisional Officer, Jehanabad
217-Ghosi	Deputy Collector Land Reforms, Jehanabad
218-Makhdumpur (SC)	Additional Collector (Naxal), Jehanabad
219-Goh	Sub Divisional Officer, Daudnagar
220-Obra	Deputy Collector Land Reforms, Daudnagar
221-Nabinagar	Deputy Collector Land Reforms, Aurangabad
222-Kutumba (SC)	Additional Collector, Aurangabad
223-Aurangabad	Sub Divisional Officer, Aurangabad
224-Rafiganj	District Panchayati Raj Officer, Aurangabad
225-Gurua	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Gaya
226-Sherghati	Sub Divisional Officer, Sherghati Gaya
227-Imamganj (SC)	Additional Collector, Land Ceiling, Gaya
228-Barachatti (SC)	Deputy Collector Land Reforms, Sherghati, Gaya
229-Bodh Gaya (SC)	Additional Collector, Gaya
230-Gaya Town	Sub Divisional Officer, Sadar, Gaya
231-Tikari	Sub Divisional Officer, Tekari, Gaya
232-Belaganj	Additional Collector Naxal, Gaya
233-Atri	Sub Divisional Officer, Neemchak Bathani, Gaya
234-Wazirganj	Deputy Collector Land Reform, Gaya Sadar
235-Rajauli (SC)	Sub Divisional Officer, Rajauli
236-Hisua	Additional Collector, Nawada
237-Nawada	Sub Divisional Officer, Nawada

No. and Name of Assembly Constituencies	Returning Officer
1	2
238-Gobindpur	District Panchayati Raj Officer, Nawada
239-Warsaliganj	Distrcit Supply Officer, Nawada
240-Sikandra (SC)	Director, Accounts Administration and self employment, District Rural Development Agency, Jamui
241-Jamui	Sub Divisional Officer, Jamui
242-Jhajha	Deputy Development Commissioner, Jamui
243-Chakai	Deputy Collector Land Reform, Jamui

By Order,
R.K.SRIVASTAVA,
Secretary,
Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 168-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>